



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2009/अग्रहायण 17, 1931

No. 366]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2009/AGRAHAYANA 17, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2009

सं. 24/2009—2014

फा. सं. 01/91/180/710/ए एम 10/नीति प्रकोष्ठ 3.—
विदेश व्यापार नीति, 2009—2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

क्रम सं. 28 पर, हथकरघा उत्पाद शीर्षक के तहत प्रक्रिया-पुस्तक खण्ड (1) के परिशिष्ट 37घ की तालिका 1 (फोकस उत्पाद) में, आईटीसी (एचएस) कोड 52091112 के बाद आईटीसी (एचएस) कोड 52091113 को जोड़ा जाता है और आईटीसी (एचएस) कोड 52091119 को हटाया जाता है।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 8th December, 2009

No. 24/2009—2014

F.No. 01/91/180/710/AM 10/PC-3.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009—2014, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Vol. I) :—

In Appendix 37D, Handbook of Procedures Vol. I, in Table 1 (Focus Products), under the heading Handloom Products, at Sl. No. 28, ITC (HS) Code 52091113 is added after the ITC (HS) Code 52091112, and ITC (HS) Code 52091119 is deleted.

This issues in public interest.

R.S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
and ex-officio Addl. Secy.